



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 15 जुलाई, 2024

आषाढ़ 24, 1946 शक सम्बत्

राज्य निर्वाचन आयोग, उ0 प्र0

पी0सी0एफ0 भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ

संख्या 186/रा0नि0आ0-3/प0नि0/18-24-2024

लखनऊ, 15 जुलाई, 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या 1071/33-3-2024, दिनांक 08 जुलाई, 2024 के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद-243ट सपठित संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 खख के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, राज प्रताप सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा उत्तर प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा सदस्यों के आकस्मिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराए जाने का निर्देश देता हूँ :-

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
22 जुलाई, 2024 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक)	23 जुलाई, 2024 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	24 जुलाई, 2024 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	24 जुलाई, 2024 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	06 अगस्त, 2024 (प्रातः 07.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक)	08 अगस्त, 2024 (प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2-सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अपने जनपद की सार्वजनिक सूचना दिनांक 16 जुलाई, 2024 को निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए तथा एक प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल भेजेंगे। ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2024 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जाएगी। इस निर्वाचन कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा और गाँवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जाएगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ हो जाएगा।

3—उपर्युक्त उप निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच करने, उम्मीदवारी वापस लेने, प्रतीक आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर की जाएगी।

4—उपर्युक्त समय-सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज्ञा से,  
राज प्रताप सिंह,  
राज्य निर्वाचन आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश ।